

भारत और मालदीव

प्रलिमिस के लिये:

सागर, नेबरहुड फरस्ट, सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP), भारत की पड़ोस नीति, मोतियों की माला/स्ट्रगि ऑफ परल।

मेन्स के लिये:

भारत-मालदीव संबंध और आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और मालदीव ने मालदीव में विकास परियोजनाओं पर समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- मालदीव एवं श्रीलंका दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी हैं जो प्रधानमंत्री के 'सागर/SAGAR' (क्षेत्र में सभी हेतु सुरक्षा और विकास) तथा 'नेबरहुड फरस्ट' के दृष्टिकोण में विशेष स्थान रखते हैं।



समझौता:

■ अनुदान सहायता:

- इसमें उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project- HICDP) के लिये 100 मिलियन रूफिया/Rufiyaa (मालदीव की मुद्रा) की अनुदान सहायता शामिल है।

○ इस वित्तिपोषण के तहत पूरे देश में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को लागू करने की योजना है।

■ खेत परसिर और शैक्षणिक सहयोग:

- इसमें गहधू में एक खेल परसिर का विकास और मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी एवं कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग भी शामिल है।

मालदीव के साथ भारत के संबंध:

- सुरक्षा भागीदारी:**
 - रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास के क्षेत्रों तक विस्तृत है जैसे- [एकुवेन्नि](#), 'दोस्ती', 'एकथा' और 'ऑपरेशन शील्ड' (वर्ष 2021 में शुरू)।
 - मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (Maldivian National Defence Force- MNDF) के लिये भारत इस क्षेत्र में उसकी 70% से अधिक ज़ारूरतों को पूरा करते हुए सबसे अधिक प्रशिक्षण संभावनाएँ प्रदान करता है।
- पुनर्सुधार केंद्र:**
 - अड्डू रक्फिलेशन और तट संरक्षण परियोजना के लिये 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर।
 - अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और रहिवालिटेशन सेंटर निर्मित किया गया है।
 - यह केंद्र [सुवासथय](#), [शक्षिष्ठि](#), [मत्स्य पालन](#), [प्रयटन](#), [खेल](#) और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वयन की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।
- आरथकि सहयोग:**
 - प्रयटन मालदीव की अरथव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अब भारतीयों के लिये एक प्रमुख प्रयटन स्थल है, जबकि अन्य के लिये रोजगार का साधन है।
 - अगस्त 2021 में भारतीय कंपनी ऐफ्कॉस ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) है।
 - भारत वर्ष 2018 के चौथे स्थान से बढ़ते हुए मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2021 में महामारी से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हुए द्विपक्षीय व्यापार में पछिले वर्ष की तुलना में 31% की वृद्धि दिर्ज की गई।
 - 22 जुलाई, 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय अमेरिकी डॉलर मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ:**
 - भारतीय करेडिट लाइन के तहत हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा विकास परियोजना प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को समायोजित करने के लिये एक नया टर्मिनल स्थापित करेंगे।
 - भारत के विश्व मंत्री द्वारा वर्ष 2022 में 'नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट' (NCPLE) का उद्घाटन किया गया।
 - NCPLE मालदीव में भारत द्वारा नियोजित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है।

भारत-मालदीव संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ:

- राजनीतिक अस्थिरिता:**
 - भारत की प्रमुख चत्ती पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरिता के कारण इसकी सुरक्षा और विकास पर प्रभाव रहा है।
 - फरवरी 2015 में मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद की आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तारी और उसके प्रतिवाद उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट ने [भारत की पड़ोस नीति](#) के समक्ष एक वास्तविक कूटनीतिक परीक्षा जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी।
- कट्टरता:**
 - पछिले एक दशक में [इस्लामिक स्टेट \(IS\)](#) और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों का मालदीव में प्रभाव बढ़ता देखा गया है।
 - यह पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों द्वारा भारत और भारतीय हतियों के खलिफ आतंकी हमलों के लिये लॉन्च पैड के रूप में मालदीव के द्वीपों का उपयोग करने की आशंका को जन्म देता है।
- चीनी पक्ष:**
 - हाल के वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में चीन के सामरिक दखल में वृद्धि देखने को मिली है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन की [स्ट्रेटरी ऑफ परलस](#) (String of Pearls) रणनीतिका एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है।
 - चीन-भारत संबंधों की अनशीघ्रता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चित्ता का विषय बनी हुई है।

आगे की राह

- दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चिति करने के लिये भारत को इंडो-पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका नभीनी चाहिये।
 - भारत के समुद्री प्रभाव के क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों (विशेष रूप से चीन) के विकास की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू-प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र को विकसित किया गया है।
- वर्तमान में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
 - यदि 'इंडिया आउट' के समर्थकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सावधानी पूर्वक नहीं संभाला जाता है और भारत राष्ट्रीय परियोजनाओं के पीछे अपने इरादों के बारे में मालदीव के लोगों को प्रभावी ढंग से आश्वस्त नहीं करता है, तो यह अभियान मालदीव की घरेलू राजनीतिक स्थितिको बदल सकता है तथा मालदीव के साथ भारत के वर्तमान अनुकूल संबंधों में हलचल उत्पन्न कर सकता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विद्या वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'मोतयों की माल' से आप क्या समझते हैं? यह भारत को कैसे प्रभावित करती है? इसका मुकाबला करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। (2013)

प्रश्न. पछिले दो वर्षों के दौरान मालदीव में राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिये। क्या उन्हें भारत के लिये चति का कारण होना चाहिये? (2013)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-and-maldives>

